

18(ए) भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र को वित्तीय संसाधनों का प्रवाह

(₹ करोड़)

स्रोत	अप्रैल-मार्च		31 जनवरी तक	
	2023-24	2024-25	2024-25	2025-26 पी
1	2	3	4	5
1 गैर-खाद्य बैंक ऋण	21,40,243	17,98,321	14,03,217	21,78,645
2 गैर-बैंक स्रोत (2.1+2.2)	12,63,721	17,10,346	11,50,083	12,68,827
2.1 घरेलू स्रोत	10,20,302	13,85,609	9,14,225	9,58,754
2.1.1 गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा इक्विटी निर्गम	1,35,008	3,81,161	3,39,525	2,97,832
2.1.2 गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा कारपोरेट बॉण्ड निर्गम	1,67,374	1,97,795	1,05,513	2,45,752
2.1.3 गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा हाइब्रिड लिखत(आरईआईटीएस/आईएनवीआईटीएस)	39,024	31,442	15,826	18,393
2.1.4 गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा वाणिज्यिक पेपर निर्गम	19,712	18,819	55,057	48,700
2.1.5 आवास वित्त कंपनियों द्वारा ऋण (बैंक ऋण घटाकर)	1,41,816	1,34,852	-3,354	-4,135
2.1.6 आरबीआई-विनियमित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण	73,386	99,501	29,059	-10,522
2.1.7 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा ऋण (बैंक ऋण घटाकर)	4,43,982	5,22,037	3,72,600	3,62,734
2.2 विदेशी स्रोत	2,43,419	3,24,737	2,35,858	3,10,073
2.2.1 गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार	27,916	19,090	12,957	35,357
2.2.2 गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा एडीआर/जीडीआर	0	0	0	0
2.2.3 विदेश से अल्पकालिक ऋण	-6,741	58,859	63,150	24,960
2.2.4 भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	2,22,244	2,46,788	1,59,751	2,49,756
3 संसाधनों का कुल प्रवाह (1+2)	34,03,964	35,08,667	25,53,300	34,47,472

पी: अनंतिम

स्रोत संख्या 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.6, 2.2.1 और 2.2.2 से कॉलम 4 और 5 के लिए डेटा का कवरेज: नवंबर तक।

2.1.7 और 2.2.3: सितंबर तक।

टिप्पणियाँ:

- गैर-खाद्य बैंक ऋण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से संबंधित है और इसमें सहकारी बैंकों द्वारा ऋण शामिल नहीं है।
- बैंकों, एनबीएफसी और एचएफसी द्वारा ऋण में व्यक्तिगत ऋण शामिल हैं।
- इक्विटी और हाइब्रिड लिखतों को छोड़कर, सभी मदों पर डेटा निवल आधार पर प्रस्तुत किया गया है, जो सकल आधार पर हैं।
- अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई), भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एकियम बैंक) और राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्तपोषण बैंक (एनबीएफआईडी) शामिल हैं। एआईएफआई द्वारा दिए गए ऋण में एससीबी, एनबीएफसी और एचएफसी को पुनर्वित्तपोषण तथा घरेलू एवं विदेशी सरकारों/संस्थानों को प्रदत्त प्रत्यक्ष ऋण शामिल नहीं हैं।
- एचडीएफसी लिमिटेड जिसका 1 जुलाई, 2023 से एचडीएफसी बैंक में विलय हो गया, से संबंधित डेटा, विलय से पहले आवास वित्त कंपनियों द्वारा दिए गए ऋण के अंतर्गत आता है, जबकि विलय के बाद यह बैंक ऋण के अंतर्गत आता है।
- आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा दिए गए ऋण के डेटा को कुछ एचएफसी के एनबीएफसी में रूपांतरण के लिए समायोजित किया गया है।

स्रोत: आरबीआई; एसईबीआई; एआईएफआई; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।